

विषय-लेखाशास्त्र
कक्षा-11
शैक्षिक सत्र-2026-27
पाठ्यक्रम का मासिक विभाजन

क्रम सं०	माह	पाठ्यक्रम
01	अप्रैल	भाग-1 अध्याय-1 लेखांकन एक परिचय- लेखांकन का अर्थ, लेखांकन एक सूचना के स्रोत के रूप में, लेखांकन के उद्देश्य, लेखांकन की भूमिका, लेखांकन के आधारभूत पारिभाषिक शब्द
02	मई	अध्याय-2 लेखांकन के सैद्धान्तिक आधार- सामान्यतः मान्य लेखांकन सिद्धान्त (GAAP), आधारभूत लेखांकन संकल्पनाएँ, लेखांकन प्रणालियाँ, लेखांकन के आधार, लेखांकन मानक, वस्तु एवं सेवा कर
03	जून	ग्रीष्मावकाश
04	जुलाई	अध्याय-3 लेन-देनों का अभिलेखन-1 व्यावसायिक सौदे व स्रोत प्रलेख, लेखांकन समीकरण, नाम व जमा का प्रयोग, प्रारम्भिक प्रविष्टि की पुस्तकें, खता बही, रोजनामचे से खतौनी। अध्याय-4 लेनदेनों का अभिलेखन-2 रोकड बही, क्रय पुस्तक, क्रय वापसी पुस्तक, विक्रय पुस्तक, विक्रय वापसी पुस्तक, मुख्य रोजनामचा, खातों का संतुलन। प्रथम युनिट टेस्ट (बहुविकल्पीय प्रश्न आधारित)
05	अगस्त	अध्याय-5 बैंक समाधान विवरण- बैंक समाधान विवरण की आवश्यकता, बैंक समाधान विवरण का निर्माण अध्याय-6 तलपट एवं अशुद्धियों का शोधन- तलपट का अर्थ, तलपट बनाने के उद्देश्य, तलपट को तैयार करना, तलपट के मिलान का महत्व, अशुद्धियों को ज्ञात करना, अशुद्धियों का संशोधन। द्वितीय युनिट टेस्ट (वर्णनात्मक प्रश्न आधारित)
06	सितम्बर	अध्याय-7 ह्रास प्रावधान और संचय- ह्रास, ह्रास एवं इससे मेल खाते शब्द, ह्रास के कारण, ह्रास की आवश्यकता, ह्रास की राशि को प्रभावित करने वाले तत्व, ह्रास की राशि की गणना की पद्धतियाँ, सीधी रेखा एवं क्रमागत ह्रासविधि तुलनात्मक विश्लेषण,
07	अक्टूबर	अध्याय-7 का अवशेष- ह्रास के अभिलेखन की पद्धतियाँ, परिसम्पत्ति का निपटान/विक्रय, वर्तमान परिसम्पत्ति में बढ़ोत्तरी एवं विस्तार, प्रावधान, संचय, गुप्त संचय अर्धवार्षिक परीक्षा 60 प्रतिशत पाठ्यक्रम के आधार पर
08	नवम्बर	भाग-2 अध्याय-8 वित्तीय विवरण- पणधारी और उनकी सूचना आवश्यकताएँ, पूँजी और आगम के मध्य भेद, वित्तीय विवरण, व्यापारिक व लाभ और हानि खाता, प्रचालन लाभ, तुलन पत्र, प्रारम्भिक प्रविष्टि। तृतीय युनिट टेस्ट (बहुविकल्पीय प्रश्न पर आधारित)
09	दिसम्बर	अध्याय-9- वित्तीय विवरण-2 समायोजन की आवश्यकता, अन्तिम स्टाक, बकाया व्यय, पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित आय, अग्रिम प्राप्त आय, ह्रास, डूबत ऋण, संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान, देनदारों पर बट्टे का प्रावधान, प्रबन्धक कमीशन, पूँजी पर ब्याज। चतुर्थ युनिट टेस्ट (वर्णनात्मक प्रश्न पर आधारित)
10	जनवरी	सम्पूर्ण पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति, वार्षिक परीक्षा का आयोजन
11	फरवरी	बोर्ड परीक्षा का आयोजन। कमजोर छात्र/छात्राओं का उपचारात्मक शिक्षण
12	मार्च	मूल्यांकन कार्य एवं मार्च माह में परीक्षा फल का वितरण

